

राजस्थान दविस 2023

चर्चा में क्यों?

30 मार्च, 2023 को राजस्थान का 74वाँ स्थापना दविस मनाया गया। आज ही के दिनि 30 मार्च, 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर में एक समारोह में वृहद् राजस्थान का उद्घाटन किया था।

प्रमुख बदि

- गौरतलब है कि 14 जनवरी, 1949 को उदयपुर की एक सार्वजनिक सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर रियासतों के सैद्धांतिक रूप से वलिय की घोषणा की थी।
- इस घोषणा को मूर्त रूप देने के लिये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर में 30 मार्च, 1949 को एक समारोह में वृहद् राजस्थान का उद्घाटन किया था, इसलिये राजस्थान दविस हर वर्ष तीस मार्च को मनाया जाता है।
- आज़ादी से पहले राजस्थान को 'राजपूताना'के नाम से जाना जाता था। इतिहासकारों का मानना है कि जार्ज थॉमस ने साल 1800 ईसा में 'राजपूताना' नाम दिया था। इतिहासकारों का दावा है कि कर्नल जेम्स टॉड ने इस राज्य का नाम राजस्थान रखा। स्थानीय साहित्यिक भाषा में राजाओं के नविस प्रांत को राजस्थान ही कहा जाता था।
- आज़ादी के वक्त राजस्थान में कुल 22 रियासतें थीं। वर्तमान राजस्थान में तत्कालीन 19 देसी रियासतों में राजाओं का शासन हुआ करता था। जबकि, तीन रियासतों (नीमराना, लव और कुशलगढ़) में चीफशिपि थी। यहाँ के अजमेर-मेरवाड़ा प्रांत पर ब्रिटिश शासकों का राज था।
- तत्कालीन रियासतों के वलिय की प्रक्रिया 18 मार्च, 1948 से एक नवंबर 1956 तक चली। इस प्रक्रिया को सात चरणों में पूरा किया गया था।
- भारत सरकार ने अफजल अली के नेतृत्व में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की सफिरशि पर ब्रिटिश शासति अजमेर-मेरवाड़ा प्रांत का 1 नवंबर, 1956 को राजस्थान में वलिय कर लिया।
- इस दौरान ही मध्य प्रदेश की मंदसौर तहसील के गाँव सुनेलटप्पा को भी राजस्थान में शामिल किया गया। जबकि, राजस्थान के झालावाड़ ज़िले के गाँव सरिंज को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया।
- भारत सरकार की गठित राव समितिकी सफिरशियों के आधार पर 7 सतिंबर, 1949 को जयपुर को राजस्थान राज्य की राजधानी बनाया गया।
- राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल तीन लाख 42 हजार 239 वर्ग किलोमीटर है। यह देश का 1/10 भूभाग है।
- 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6.89 करोड़ है, जो कि भारत की जनसंख्या का 5.66 प्रतिशत है। जनसंख्या के अनुसार ये देश में सातवें स्थान पर है।
- राजस्थान में अभी तक सात संभाग और 33 ज़िले थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 मार्च, 2023 को दो ज़िलों का वलिय करते हुए 19 नए ज़िले और तीन नए संभाग के गठन की घोषणा की। इसके बाद से अब राजस्थान में कुल 10 संभाग और 50 ज़िले हो गए हैं। हालाँकि नए ज़िलों और संभागों का नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है।
- राजस्थान पड़ोसी देश पाकिस्तान से सटा हुआ है। उसके साथ इसकी 1,070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर ज़िलों की सीमाएँ पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जैसलमेर ज़िले में कुलधरा गाँव सबसे पुराना गाँव है। माना जाता है कि यह गाँव 200 साल से वीरान है।
- राजस्थान की 4850 किलोमीटर सीमा देश के दूसरे राज्यों से मिलती है जिनमें पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात राजस्थान के सीमावर्ती राज्य हैं।
- पर्यटन के नकशे में राजस्थान की वशिष पहचान है। यहाँ दर्जनों ऐसे पर्यटन स्थल हैं, जहाँ रोजाना हजारों की संख्या में देसी-वदिशी पर्यटक आते हैं। वहीं धोरों की धरती जैसलमेर की अपनी अलग पहचान है। वहाँ हचिकोले खाते पर्यटक ऊँटों की सवारी का आनंद लेते देखे जा सकते हैं। झीलों की नगरी उदयपुर हो या पकि सटि जयपुर, पर्यटन की दृष्टि से यहाँ कई दर्शनीय स्थान हैं।
- राजस्थान में कई कलियाँ हैं, इनमें 13 प्रमुख हैं। इनमें जयपुर का आमेर और जयगढ़ कलिया, जोधपुर का मेहरानगढ़ कलिया, राजसमंद का कुंभलगढ़ कलिया, सवाई माधोपुर का रणथंभौर कलिया, बीकानेर का जूनागढ़ कलिया, भरतपुर का लोहागढ़ कलिया की दुनियाभर में पहचान है। अन्य कलियों और महलों में गागरौन कलिया, जैसलमेर, सरौही का अचलगढ़, नागौर का अहच्छिर्गढ़, जालौर दुर्ग, सरौही का खमिसर कलिया, अलवर का नमिराणा कलिया, सटि पैलेस आदि भी प्रसदिध हैं। अभेदया कलियों के साथ रानयिों के रहने के लिये आलीशान महल भी बने हुए थे।
- राजस्थान, पृथ्वी राज चौहाण, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा जैसे शूरवीरों के इतिहास को सहेजे हुए है। देश-दुनिया में राजस्थान को वीरों की धरती से ही पहचाना जाता है। हलदी घाटी का युद्ध, चित्तौड़, खानवा, तराइन, रणथंभौर के युद्ध राजस्थान की धरती पर ही हुए।
- वर्तमान समय में भारतीय सेना में राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र (सीकर, झुंझुनू और चूरू) से बड़ी संख्या में युवा हैं। देश सेवा के लिये राजस्थान के शेखावाटी से सर्वाधिक युवा सेना में जाते हैं।



//

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rajasthan-day-2023>